

आर्मी पब्लिक स्कूल भुज  
कार्यपत्रक - (2020)

विषय - हिंदी

कक्षा - 6

पूर्णांक - 40

खंड - क (अंक - 10)

प्रश्न 1. निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए- (5)

गोल हैं खूब मगर  
आप तिरछे नज़र आते हैं जरा।  
आप पहने हुए हैं कुल आकाश  
तारों-जड़ा ;  
सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना  
गोरा - चिट्टा ,गोल - मटोल  
अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्त ।  
आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे ॥

- प्रश्न 1 (1) चाँद की पोशाक कैसी है ?  
(2) चाँद कैसा है और कैसा नज़र आता है ?  
(3) लड़की किससे बात कर रही है ?  
(4) चाँद का रंग कैसा है ?  
(5) कवि और कविता का नाम लिखिए ।

प्रश्न 2. निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए- (5)

हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा-बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ । शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी । मेरे पहनने - ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं । पहले मैं रंग- बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ । नीला - जामुनी - ग्रे - काला - चॉकलेटी । अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो । गहरे नहीं, हलके रंग । मैंने पिछले दशकों में तरह - तरह की पोशाकें पहनी हैं । पहले फ्राक, फिर निकर -विकर ,स्कर्ट,लहँगे ,गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ।

- प्रश्न (2)(क) लेखिका पहले किस रंग के कपड़े पहनती थी ?  
(ख) यहाँ 'मैं' का प्रयोग किसके लिए किया गया है ?  
(ग) लेखिका अब कौन-सी पोशाक पहनती है ?  
(घ) लेखिका अब सफेद कपड़े पहनना क्यों पसंद करती है ?  
(ङ) पाठ व लेखक का नाम लिखिए ।

खंड - ख व्याकरण (अंक - 10)

- प्रश्न - 3 संज्ञा किसे कहते हैं ? उनके नाम लिखिए । [2]  
प्रश्न - 4 भाषा किसे कहते हैं ? [2]  
प्रश्न - 5 सर्वनाम किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । [2]  
प्रश्न - 6 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए - [4]  
(1) गरबीली (2) पोशाक (3) विजन (4) तिरछा

**खंड - ग (अंक - 10)**

**प्रश्न - 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए - (2x5=4)**

- (1) राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी ने क्या किया?
- (2) राम ने सुमंत को रथ तेज चलाने को क्यों कहा ?
- (3) मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न ने क्या किया?
- (4) मारीच क्यों क्रोधित था ?
- (5) राजा दशरथ कैसे शासक थे ? उन्हें क्या दुख था

**प्रश्न - 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक लिखिए - (5x2=10)**

- (1) केशव ने श्यामा चिथड़े , टोकरी और दाना- पानी माँगकर कार्निंस पर क्यों रखे थे ?
- (2) लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा ? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे?
- (3) चिड़िया को किन - किन चीजों से प्यार है ?
- (4) केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी ?
- (5) चाँद को क्या मरज़ है जो ठीक ही नहीं होती ?

**प्रश्न - 9 निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए- (5)**

वह चिड़िया जो कंठ खोलकर  
बूढ़े वन - बाबा की खातिर  
रस उँडेलकर गा लेती है ।

**खंड - घ (अंक 5)**

**प्रश्न - 10 विद्यालया में उचित सफाई की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना-पत्र लिखिए। (5)**